

प्रेस नोट दिनांक- 10-01-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विष्णु कोल पुत्र जयकरण निवासी पिपरी टोला उमरी थाना मानिकपुर चित्रकूट को 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गाजे के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 05/2021धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 किलो 100 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह
2. मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह
3. आरक्षी पंकज सिंह
4. आरक्षी अरविंद कुमार मौर्य

(2). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 10.01.2021 को एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुन्नी चौराहा, भैरंपागा में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम अरवारी, महाराज एवं कल्चिहा में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम अकबरपुर, भरतकूप, पहरा में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा एवं महिला घाट मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम किहुनिया कस्बा मारकुंडी में, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा ट्राफिक चौराहा मिशन रोड मेगा बाजार CIC व गणेश बाग में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा अस्पताल, विसण्डा, चौराहा में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।